

## प्रेस नोट दिनांक- 03.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 21.04.2021 को थाना लवेदी क्षेत्र में सरकारी ठेका से शराब चोरी करने वाले अभियुक्त को 18 पेटी देशी शराब व 01 तमंचा सहित किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना लवेदी पुलिस द्वारा दिनांक 21.04.2021 को थाना लवेदी क्षेत्र में सरकारी ठेका से शराब चोरी करने वाले अभियुक्त को 18 पेटी देशी शराब व 01 तमंचा सहित किया गिरफ्तार।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.04.2021 को थाना लवेदी के ग्राम इंगुरी में स्थित सरकारी देशी शराब के ठेका से शराब की 22 पेटी चोरी होनी की सूचना प्राप्त हुयी थी जिसके संबंध में ठेका संचालक की तहरीर के आधार पर थाना लवेदी पर मु0अ0स0 48/21 धारा 380 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना लवेदी से उक्त चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.06.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लवेदी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को लाल पुलिया सारंगपुरा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 18 पेटी शराब व 01 तमंचा (अधिया) 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद शराब के संबंध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने दिनांक 21.04.2021 को ग्राम इंगुरी स्थित सरकारी देशी शराब के ठेका से शराब की 22 पेटी चोरी की गयी थी।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोनू चक पुत्र श्याम सुंदर निवासी ग्राम अचानकपुर थाना सहायल जनपद औरैया।

### बरामदगी-

1. 18 पेटी शराब (चोरी की हुयी)
2. 01 तमंचा (अधिया) 12 बोर
3. 02 जिंदा कारतूस 12 बोर

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 48/21 धारा 380/411 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 66/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 86/21 धारा 171 एच ,272 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना सहायल जनपद औरैया

पुलिस टीम- श्री सुरेश चन्द्र थानाध्यक्ष लवेदी मय टीम।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा